

प्रैस विज्ञप्ति

मेधा डेयरी द्वारा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया

मेधा डेयरी के द्वारा 26 नवंबर 2019 को डा. वर्गीज़ कुरियन का जन्मदिवस राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में होटवार डेयरी, राँची में मनाया गया | डा. वर्गीज़ कुरियन को श्वेत क्रान्ति के जनक के रूप में भी जाना जाता है, जिनके फलस्वरूप आज भारत देश सम्पूर्ण विश्व में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी स्थान पर है | भारत के डेयरी क्षेत्र में सहकारी समितियों से जुड़े किसान भाई-बहनों ने अहम योगदान दिया है जिनके अथक प्रयासों से देश आज पूरे विश्व में दुग्ध उत्पादन में अक्वल नंबर पर है |

इस अवसर पर झारखंड मिल्क फेडरेशन के प्रबन्धक निदेशक, श्री सुधीर कुमार सिंह ने सहकारिता के महत्व एवं श्वेत क्रान्ति की सफलता में डा. वर्गीज़ कुरियन के अतुल्य योगदान से कार्मिको को अवगत कराया | मेधा डेयरी के महा प्रबन्धक, श्री पवन कुमार मारवाह ने भी इस मौके पर सहकारिता से किसानों को हुए लाभ के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की | इस अवसर पर डा. वर्गीज़ कुरियन के जीवन से संबन्धित एक प्रस्तुति भी दी गई जिससे कार्मिकों को सहकारी डेयरी के प्रति ज्ञानवर्धन हुआ | कार्यक्रम में जयदेव बिश्वास, उमाशंकर सिंह, अमृतेश कुमार, संदीप धीमान, आभास अमर एवं अन्य उपस्थित थे |

राष्ट्रीय दुग्ध दिवस को झारखंड मिल्क फेडरेशन की अन्य ईकाईयो देवघर, कोडरमा, लातेहार एवं लोहरदगा में भी हर्षोलास से मनाया गया |

मेधा डेयरी, झारखण्ड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ की एक इकाई है, जो 'मेधा' ब्रांड के नाम से झारखंड राज्य के अतिरिक्त निकटवर्ती राज्यों में भी दूध एवं दुग्ध उत्पादों की आपूर्ति करती है |

